

CHI St. Joseph Health वतितीय सहायता आवेदनपत्र संबंधी निर्देश

यह आवेदन पत्र *CommonSpirit Health* केंद्र में वित्तीय सहायता के लिए है।

CommonSpirit Health उन लोगों और परिवारों को वतितीय सहायता परदान करता है जो कुछ विशिष्ट आय आव यकताओं की पूर्ति करते हैं। चाहे आपका सवास य बीमा हो, आप अपने परिवार के आकार और आय के आधार पर मु त देखभाल या रियायती देखभाल के लिए अर्हता पराप्त कर सकते हैं। जिन मरीजों की पारिवारिक आय संघीय गरीबी सतर के दिशानिर्देशों के 400% से कम है, उन्हें सहायता परदान की जाती है। संघीय गरीबी सतर दिशानिर्देशों की जानकारी <http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines> पर देखी जा सकती है।

वतितीय सहायता में कया शामिल है? असपताल वित्तीय सहायता आपकी योग्यता के आधार पर CommonSpirit Health द्वारा परदान की जाने वाली उपयुक्त असपताल-आधारित सेवाओं को कवर करता है। संभव है कि वित्तीय सहायता सभी स वास य देखभाल लागतों को कवर न करे जिनमें अनम संगठनों द्वारा परदान की जाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं।

यदि आपके कोई परशन हैं या इस आवेदनपत्र को पूरा करने में सहायता चाहिए: आप किसी भी कारण से सहायता पराप्त कर सकते हैं, जिसमें विलकांगता और भाषा सहायता भी शामिल हैं: 979-776-4952

आपके आवेदनपत्र पर कार्यवाही हो इसके लिए, आपको निमनलिखित करना होगा:

- हमें अपने परिवार के बारे में जानकारी प्रदान करें
- हमें अपने परिवार की सकल मासिक आय (करों और कटौती से पहले की आय) के बारे में जानकारी प्रदान करें
- परिवार की आय के दस्तावेज प्रदान करें
- पारिवारिक संपत्ति के दस्तावेज प्रदान करें
- यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त जानकारी संलग्न करें
- फॉर्म पर हस्ताक्षर और तारीख लिखें

ध्यान दें: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमें अपना सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान करते हैं तो आपके आवेदन की प्रक्रिया को तेजी से करने में मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा संख्या का उपयोग हमें प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यदि आपके पास सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं है, तो कृपया "लागू नहीं" या "नहीं" चिह्नित करें।

सभी दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदनपत्र मेल या फैक्स करें: CHI St. Joseph Health, ATTN: EES - Financial Assistance Center, P.O. Box 660872 Dallas, TX 75266-0872, Fax: 469-803-4627. एक परति अपने पास अव य रखें।

अपना पूर्णकिया हुआ आवेदनपत्र यिकितगत रूपसे जमा करने के लिए: CHI St. Joseph Health Hospital Emergency Department.

आय के दस्तावेजीकरण सहित संपूर्ण वित्तीय सहायता आवेदन पराप्त करने के कलेंडर दिनों के भीतर हम आपको, यदि लागू हो तो, पत्र और अपील के अधिकारों के अंतिम निर्धारण के बारे में सूचित करेंगे।



वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दाखिल करके, आप हमें वित्तीय दायित्वों और जानकारी की पुष्टि करने के लिए आवश्यक पूछताछ करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

हम मदद करना चाहते हैं। कृपया अपना आवेदनपत्र तुरंत जमा करें!
जब तक हमें आपकी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक आपको बिल प्राप्त हो सकते हैं।

CHI St. Joseph Health
वित्तीय सहायता आवेदन फॉर्म – गोपनीय

कृपया सभी जानकारी पूरी तरह से भरें। यदि यह लागू नहीं होता है, तो "NA" लिखें। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें।

जाँच संबंधी जानकारी

क्या आपको दुभाषिए की ज़रूरत है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <i>यदि हाँ, तो पसंदीदा भाषा लिखें:</i>
क्या मरीज ने Medicaid के लिए आवेदन किया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <i>वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाने से पहले आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है</i>
क्या मरीज को राज्य की सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि फूड स्टैम्स या महिला, शिशु और बच्चों के लिए सेवाएं (WIC) प्राप्त होती हैं? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
क्या मरीज वर्तमान में बेघर है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
क्या मरीज की चिकित्सा देखभाल कार दुर्घटना या कार्यस्थल पर आयी चोट से संबंधित है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
CommonSpirit Health हेल्थ अस्पताल (अस्पतालों) की सूची जहां आपका इलाज किया गया था:

कृपया ध्यान दें

- आपके आवेदन करने पर भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आप वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
- आपके द्वारा आवेदन भेजने के बाद हम सारी जानकारी की जांच कर सकते हैं और अतिरिक्त जानकारी या आय का प्रमाण मांग सकते हैं।

मरीज और आवेदक की जानकारी

मरीज का पहला नाम	मरीज का मध्य नाम	मरीज का उपनाम
जन्मतारीख	मरीज की खाता संख्या:	मरीज की सामाजिक सुरक्षा संख्या (वैकल्पिक*)
बिल भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति	मरीज के साथ संबंध	जन्मतारीख
डाक पता		मुख्य संपर्क नंबर () _____ () _____
शहर राज्य झिप कोड		ईमेल पता: _____
बिल भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की रोजगार स्थिति <input type="checkbox"/> कार्यरत (नियुक्ति की तारीख: _____) <input type="checkbox"/> बेरोजगार (कब से बेरोजगार: _____) <input type="checkbox"/> स्व-रोजगार <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> विकलांग <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> अन्य (_____)		

परिवार की जानकारी

अपने सहित अपने घर में परिवार के सदस्यों की सूची बनाएं। "परिवार" में जन्म, विवाह या गोद लेने से संबद्ध दो या दो से अधिक लोग शामिल होते हैं जो एक साथ रहते हैं। यदि कोई मरीज अपने आयकर रिटर्न पर आश्रित के रूप में किसी का दावा कर सकता है, तो वह व्यक्ति इस आवेदन के प्रयोजनों के लिए मरीज के परिवार का सदस्य होगा।

परिवार का आकार

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें

नाम	जन्मतारीख	मरीज के साथ संबंध	यदि 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं: नियोक्ता(ओं) का नाम या आय का स्रोत	यदि 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं: कुल सकल मासिक आय (करों से पहले):	वित्तीय सहायता के लिए भी आवेदन कर रहे हैं?
					हाँ / नहीं
					हाँ / नहीं
					हाँ / नहीं
					हाँ / नहीं
					हाँ / नहीं
					हाँ / नहीं

परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आय को प्रकट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आय के स्रोतों में शामिल हैं:

- वेतन - बेरोजगारी - स्व-रोजगार - कर्मचारियों का मुआवजा - विकलांगता - SSI
- बच्चे/जीवनसाथी का उपजीवन - कार्य अध्ययन कार्यक्रम (विद्यार्थी) - निवृत्ति वेतन - सेवानिवृत्ति खाता वितरण
- अन्य (कृपया पहचानें: _____)

CHI St. Joseph Health
वित्तीय सहायता आवेदन फॉर्म – गोपनीय

आय की जानकारी

याद रखें: आपको अपने आवेदनपत्र के साथ आय का प्रमाण शामिल करना होगा।

आपको अपने परिवार की आय की जानकारी देनी होगी। वित्तीय सहायता निर्धारित करने के लिए आय सत्यापन आवश्यक है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आय का खुलासा करना होगा। कृपया आय के प्रत्येक अभिज्ञात स्रोत

का प्रमाण प्रदान करें।

आय के प्रमाण के उदाहरणों में शामिल हैं:

- यदि लागू हो तो शेड्यूल सहित, पिछले साल का आयकर रिटर्न; या
- "W-2" अस्वीकृति विवरण; या
- वर्तमान वेतन स्टब्स (3 महीने); या
- नियोक्ता या अन्य से लिखित, हस्ताक्षरित बयान; और
- Medicaid और/या राज्य-वित्त पोषित चिकित्सा सहायता के लिए पात्रता की स्वीकृति/अस्वीकृति; या
- बेरोजगारी मुआवजे के लिए पात्रता की स्वीकृति/अस्वीकृति।

यदि आपके पास आय का कोई प्रमाण नहीं है या आपकी कोई आय नहीं है, तो कृपया एक हस्ताक्षरित विवरण के साथ एक अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें जिसमें बताया गया हो कि आप मूलभूत निर्वाह खर्च कैसे करते हैं (जैसे आवास, भोजन, और उपयोगिताओं के लिए)।

संपत्ति की जानकारी

याद रखें: आपको अपने आवेदनपत्र के साथ संपत्ति का प्रमाण शामिल करना होगा।

आपको परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। वित्तीय सहायता निर्धारित करने के लिए संपत्ति सत्यापन आवश्यक है।

परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी सदस्यों को अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का खुलासा करना होगा। कृपया प्रत्येक पहचाने गए परिसंपत्ति स्रोत का प्रमाण प्रदान करें। आय के प्रमाण के उदाहरणों में शामिल हैं:

- (हाल के 3 महीनों का विवरण दर्शानेवाले) वर्तमान बैंक विवरण
 - चालू खाता (खाते)
 - बचत खाता (खाते)
- स्टॉक और बॉन्ड सहित निवेश
- ट्रस्ट निधि
- मुद्रा बाजार खाता (खाते)
- म्यूचुअल फंड्स
- अन्य निवेश फंड जिनके वापस लिए जाने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

अतिरिक्त जानकारी

यदि आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में कोई अन्य जानकारी है जो आप हमें बताना चाहते हैं, जैसे वित्तीय कठिनाई, अत्यधिक चिकित्सा व्यय, मौसमी या अस्थायी आय, या व्यक्तिगत हानि, तो कृपया एक अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें।

मरीज का संमतिपत्र

मैं समझता हूँ कि CommonSpirit Health वित्तीय सहायता के लिए पात्रता निर्धारित करने में सहायता के लिए या भुगतान योजनाओं के लिए क्रेडिट जानकारी की समीक्षा करके और अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके जानकारी को सत्यापित कर सकता है।

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सटीक है।
- मैं स्वतंत्र रूप से या अस्पताल कर्मियों की सहायता से इस स्वास्थ्य देखभाल बिल का भुगतान करने में सहायता के लिए संघीय, राज्य, स्थानीय सरकार और निजी स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध किसी भी और सभी सहायता के लिए आवेदन करूंगा।
- मैं समझता हूँ कि यदि मैं मांगी गई जानकारी प्रदान करने में CommonSpirit Health के साथ सहयोग नहीं करता हूँ तो मेरा आवेदनपत्र अस्वीकार किया जा सकता है।
- मैं समझता हूँ कि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वह क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों सहित CommonSpirit Health द्वारा सत्यापन के अधीन है और आवश्यकतानुसार संघीय और/या राज्य एजेंसियों और अन्य द्वारा समीक्षा के अधीन है।
- मैं समझता हूँ कि सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है।

यदि आप किसी बीमा कंपनी, कर्मचारी क्षतिपूर्ति योजना, या किसी अन्य तृतीय पक्ष से भुगतान प्राप्त करते हैं, तो आप ऐसे किसी भी भुगतान के बारे में अस्पताल को सूचित करने के लिए सहमत हैं। यदि कोई तृतीय पक्ष आपको अस्पताल की सेवाओं के लिए भुगतान प्रदान करता है, तो अस्पताल मूल, पूर्ण बिल शुल्क एकत्र करने का अपना अधिकार बनाए रखता है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख